



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 13—अक्टूबर 19, 2007 (आश्विन 21, 1929)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 13—OCTOBER 19, 2007 (ASHWIN 21, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्टूबर 2007

सं. 500, दिनांक 18 सितम्बर 2007—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 84) के अधिकारी श्री सुभाष शर्मा का बिहार सरकार से स्थानांतरण होने पर उन्हें 31.08.2007 (अपराह्न) से 31.08.2012 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश : 76) के अधिकारी श्री अजय आचार्य का मध्य प्रदेश सरकार से स्थानांतरण होने पर उन्हें 3.09.2007 (पूर्वाह्न) से रक्षा मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार (अर्जन), सदस्य रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड तथा अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (यू टी : 96) की अधिकारी सुश्री गीतांजली गुप्ता कुंद्रा का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से स्थानांतरण होने पर उन्हें 20 अगस्त, 2007 (अपराह्न) से 20 अगस्त, 2011 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, पैट्रो रसायन विभाग की नफरी के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) श्री एच. के. ग्रोवर को 09 अगस्त, 2007 के

पूर्वाह्न से 31 दिसम्बर 2007 तक या नियमित आधार पर रिक्ति के भरे जाने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, 10,000-15,200/- रुपए के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री एच. के. ग्रोवर की प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर है और इससे उनके पास ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

एस. के. देव
अवर सचिव

(वित्त प्रभाग)

सं. 501, दिनांक 19 सितम्बर 2007—राष्ट्रपति, श्री लाजपत राय को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 12.7.2007 से अगले आदेशों तक सहायक वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. के. पाण्डेय
निदेशक (वित्त/स्थापना)

सेना शाखा

सं. 502, दिनांक 21 सितम्बर 2007--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पद पर सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

(स्थाई आयोग)

(लै. के पद पर 10 जून 2006 से)

निम्नलिखित टी ई एस-07 पाठ्यक्रम के कैंडिडेटों की सशस्त्र सेना में ले. के पद पर दिनांक 10 जून 2006 से स्थायी रूप से विशेष निर्देश 3/99 के अन्तर्गत स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :--

नाम (आईसी नं.), आर्म/सर्विस

अनिमेष श्रीवास्तव (68292एम), इंजीनियर

हरप्रीत सिंह मान (68293पी), सिग्नल

अजय कुमार चौहान (68294एक्स), इंजीनियर

सौरभ मेहता (68295ए), सिग्नल

मयूर अग्रवाल (68296एच), ई एम ई

सिद्धार्थ जयंत वैशम्पायन (68297एल), इंजीनियर

शरद कुमार (68298एन), ई एम ई

अंकुर गुप्ता (68299डब्ल्यू), ई एम ई

अनुप कुमार सिंह (68300ए), इंजीनियर

अजय फुलोरिया (68301एच), सिग्नल

ललित कुमार सैनी (68302एल), ई एम ई

राहुल शर्मा (68303एन), इंजीनियर

रितेश बिष्ट (68304डब्ल्यू), ई एम ई

आर विक्रम (68305वाई), सिग्नल

राजीव कुमार (68306एफ), सिग्नल

राहुल गुप्ता (68307के), ई एम ई

रविराज चन्द्रकांत चव्हाण (68308एम), ई एम ई

रोहित (68309पी), इंजीनियर

चंदन सिंह अलग (68310के), इन्फैन्ट्री

तन्मय रथ (68311एम), सिग्नल

रचित पाठक (68312पी), सिग्नल

मृणाल शर्मा (68313एक्स), सिग्नल

शर्मा सिमित रमेश (68314ए), इंजीनियर

सुयोधना वेलंकी (68315एच), ई एम ई

एस युवराज (68316एल), इंजीनियर

वरुण खरे (68317एन), इंजीनियर

एन रवि कुमार (68318डब्ल्यू), ई एम ई

आचार्य डी आदित्या चन्द्रा (68319वाई), ई एम ई

राजेश कुमार (68320एन), ई एम ई

अक्षत पाण्डे (68321डब्ल्यू), इंजीनियर

अजय कुमार राणा (68322वाई), ई एम ई

आकाश पवारिया (68323एफ), इंजीनियर

योगेन्द्र सिंह तोमर (68324के), इंजीनियर

सुनिल बलवंत पवार (68325एम), ई एम ई

गुणव्रत भिवगडे (68326पी), इंजीनियर

राकेश भान (68327एक्स), इंजीनियर

धीरेन्द्र जोशी (68328ए), इंजीनियर

अभिषेक सिंह (68329एच), सिग्नल

हिमांशु सिंह (68330एक्स), इंजीनियर

निखिल कुमार (68331ए), सिग्नल

अभिषेक आर (68332एच), ई एम ई

अक्षत कपूर (68333एल), ई एम ई

वरुण कुमार (68334एन), इंजीनियर

विवेक कुमार (68335डब्ल्यू), ई एम ई

शाश्वत दास (68336वाई), सिग्नल

वरुण मिश्रा (68337एफ), सिग्नल

नरिंदरपाल सिंह (68338के), ई एम ई

दाभोलकर संदेश कृष्णाजी (68339एम), इंजीनियर

हरप्रीत सिंह (68340एफ), ई एम ई

हरदीप सिंह भाटिया (68341के), ई एम ई

तेजपाल सिंह सोढी (68342एम), सिग्नल

बिनू विजय कुमार पी पी (68343पी), ई एम ई

टी किन अशोक प्रभु (68344एक्स), इन्फैन्ट्री

कदम श्रेणिक मोहन (68345ए), इंजीनियर

कुन्दन कुमार (68346एच), ई एम ई

पीयूष चेन्नी (68347एल), ई एम ई

पवन कुमार (68348एन), ई एम ई

सरनाडगौड पवनकुमार एस (68349डब्ल्यू), इंजीनियर

पारूल भटनागर (68350एल), सिग्नल
 भावेश मुदगल (68351एन), इंजीनियर
 सिद्धार्थ सिंह (68352डब्ल्यू), ई एम ई
 शैलेश कुमार (68353वाई), इंजीनियर
 आशिष कुमार चौधरी (68354एफ), सिग्नल
 मोहित वडेरा (68355के), सिग्नल
 सुशील झारेड़ (68356एम), इंजीनियर
 हंस राज सिंह (68357पी), सिग्नल
 कोनिष्का चौधरी (68358एक्स), इंजीनियर
 सचिन कपूर (68359ए), ई एम ई
 अविजित शर्मा (68360पी), सिग्नल
 अर्जुन गणपति (68361एक्स), मेक इन्फ्रैन्ट्री
 सिद्धार्थ शर्मा (68362ए), ई एम ई
 रोबिन पणिकर (68363एच), इंजीनियर
 अभिषेक बहल (68364एल), ई एम ई
 अर्नव चौधरी (68365एन), ई एम ई
 दीपक कुमार सिंह (68366डब्ल्यू), सिग्नल
 भूपेन्द्र सिंह वर्मा (68367वाई), सिग्नल
 दीपक ए चंदावार (68368एफ), ई एम ई
 मोरोणे अनिरुद्ध अविनाश (68369के), इंजीनियर
 अंशुमन विक्रम (68370वाई), सिग्नल
 शिवा प्रसाद बनर्जी (68371एफ), इंजीनियर

चन्द्र शेखर
 लै. कर्नल
 सहायक सेना सचिव 8 बी

थल सेना विभाग

सं. 503, दिनांक 18 सितम्बर 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

क्वचित कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार/क्लर्क सत पॉल (सं. 1078344एफ अब जेसी-242124ए), 01 मार्च 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क हाकिम अली (सं. 1080729एक्स अब जेसी-242125एच), 02 मार्च 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क राजा कुमार एच डी (सं. 1080752एल अब जेसी-242126एल), 04 मार्च 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क उदय कुमार पी (सं. 1080496एफ अब जेसी-242128डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क ओम प्रकाश राय (सं. 1080813एक्स अब जेसी-242129वाई), 02 अप्रैल 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क श्यामा पडा मन्डल (सं. 1080812पी अब जेसी-242130एन), 02 अप्रैल 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क शांती रानजन सरकार (सं. 1080819वाई अब जेसी-242162डब्ल्यू), 07 मई 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

दफादार/क्लर्क श्यामल कुमार भट्टाचार्य (सं. 1080815एच अब जेसी-242163वाई), 01 मई 2007

दफादार/क्लर्क बिमलेन्दू विकास चौधरी (सं. 1080814ए अब जेसी-242164एफ), 01 मई 2007

दफादार/क्लर्क कल्लू सिंह (सं. 1080922के अब जेसी-242194वाई), 01 जून 2007

दफादार/क्लर्क राम निवास (सं. 1080915डब्ल्यू अब जेसी-242193डब्ल्यू), 01 जून 2007

दफादार/क्लर्क राजीव कुमार (सं. 1081671एक्स अब जेसी-242196के), 01 जून 2007

दफादार/एसकेटी विजेन्द्र कुमार यादव (सं. 1081193वाई अब जेसी-242127एन), 03 मार्च 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

दफादार/एसकेटी तांगडे उघाऊ जानारधन (सं. 1079064ए अब जेसी-242131डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

दफादार/एसकेटी जसवंत सिंह (सं. 1079165एन अब जेसी-242165के), 07 मई 2007*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

विशेष सूची

क्वचित कोर

स्थाई रिसालदार धर्मशिक्षक के रैंक में

नायब रिसालदार पंडित कामेश्वर राय (जेसी-236836एम), 04 जुलाई 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पंडित दिनेश मनी त्रिपाठी (जेसी-236837पी), 26 जून 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पंडित अनिल कुमार शर्मा (जेसी-236838एक्स), 21 जून 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पंडित कैलाश प्रसाद तिवारी (जेसी-236839ए), 15 अप्रैल 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार ग्रंथी हरपाल सिंह (जेसी-237069एल), 30 दिसम्बर 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

ह./- अपठनीय
अवर सचिव

(एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 504, दिनांक 19 सितम्बर 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

हवलदार से नायब सूबेदार के रैंक में

श्रीकुमारन नायर आर (सं. 14565813एच अब जेसी-760834एच), 01 सितम्बर 2006/01 सितम्बर 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

राजेन्द्र सिंह भिष्ट (सं. 14546268 अब जेसी-760844एम), 22 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

मोहिम चन्द्रा नाथ (सं. 14544091एन अब जेसी-760762के), 01 अगस्त 2006/01 अगस्त 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (एल) के रैंक में

हीरा लाल प्रसाद (सं. 14558097ए अब जेसी-760818एल), 18 अगस्त 2006/09 जुलाई 2006*

कौल अशवनी कुमार (सं. 14558151एच अब जेसी-760819एन), 10 अगस्त 2006/16 जुलाई 2006*

सुदर्शन सिंह नेगी (सं. 14557681एल अब जेसी-760817एच), 09 अगस्त 2006/09 जुलाई 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (आर) के रैंक में

प्रमोद कुमार (सं. 14552269एन अब जेसी-760789एफ), 07 अगस्त 2006/01 जुलाई 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (आर ओ) के रैंक में

लक्ष्मीधर दलाई (सं. 14558232एच अब जेसी-760784एच), 04 अगस्त 2006/01 फरवरी 2006*

राज बीर सिंह (सं. 14560369एन अब जेसी-760785एल), 04 अगस्त 2006/01 जून 2006*

यू पौल राज (सं. 14560383ए अब जेसी-760786एन), 14 अगस्त 2006/01 जुलाई 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (ए एफ वी) के रैंक में

सुभाष चन्द्र (सं. 14552306डब्ल्यू अब जेसी-760790डब्ल्यू), 16 अगस्त 2006/01 अप्रैल 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (एम वी) के रैंक में

राज पाल (सं. 14541223एल अब जेसी-760788वाई), 04 अगस्त 2006/01 मई 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार ई ई मेक के रैंक में

ए के पान्डे (सं. 14539502एक्स अब जेसी-760787डब्ल्यू), 07 अगस्त 2006/07 जून 2006*

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

सं. 505, दिनांक 20 सितम्बर 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

नाम (आई सी नं.), आर्म, मेजर

देवेन्द्र प्रताप सिंह (57334), इन्जीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

के प्रकाश (59310), इन्जीनियर्स, 11 दिसम्बर 2005

सुरजीत सिंह तंवर (59602), मैक इन्फैन्ट्री, 10 जून 2006

विद्या प्रकाश (59723), आर्टी, 10 जून 2006

विरेंद्र सिंह सलारिया (60086), ए सी, 09 दिसम्बर 2006

मनोज कुमार झा (60094), ए एस सी, 09 दिसम्बर 2006
 लोक बहादुर मल (60109), ए ओ सी, 09 जून 2007
 पुनीत अत्री (60186), ए सी, 09 दिसम्बर 2006
 सचिन दीपक वाकनकर (60224), आर्टी, 09 दिसम्बर 2006
 विवेका मूर्ति एन एस (60286), आर्टी, 09 दिसम्बर 2006
 विनय कुमार पाठक (60297), आर्टी, 09 दिसम्बर 2006
 शुभांकर मिश्रा (60423), ए एस सी, 09 दिसम्बर 2006
 देवेन्द्र (60443), आर्टी, 09 दिसम्बर 2006
 अभिजीत कुशवाहा (60445), इन्फैन्ट्री, 09 जून 2007
 गगनदीप सिंह (60465), ए एस सी, 09 दिसम्बर 2006
 कुनीक फौजदार (60839), आर्टी, 04 नवम्बर 2006
 देशपाण्डे पंकज हरीश (64882), ए ए डी, 04 नवम्बर 2006
 जितेन्द्र सिंह (65013), ईन्ट, 02 मई 2007
 पृथीपाल सिंह आहलूवालिया (65084), ई एम ई, 02 मई 2007
 अदीप पॉल पानेसर (65085), ई एम ई, 02 मई 2007
 प्रवीन कुमार (65090), ई एम ई, 02 मई 2007

स्पेशल कमीशन

कप्तान से मेजर

नाम (एस सी नं.), आर्म्स
 मंजानाथ (00297), ए सी
 अविजीत दास (00298), ए एस सी
 संजीव एन (00300), इन्फैन्ट्री
 डेविड जेबाराज (00301), ईन्ट
 मधुसूदन बी बी (00302), ए ओ सी
 थम बहादुर श्रेष्ठा (00303), इन्फैन्ट्री
 दिल बाग सिंह राणा (00304), आर्टी
 के अन्नादुरई (00305), इन्फैन्ट्री
 के एन सेलवन (00306), इन्फैन्ट्री
 बच्चे सिंह (00307), आर्टी
 एम इम्मानुएल सोबर्स मानिकराज (00308), इन्फैन्ट्री
 प्यार सिंह भट्टोइया (00309), इन्फैन्ट्री
 दामोदरन पी (00310), आर्टी
 थॉमस वर्गीस (00311), आर्टी
 एच शूकर (00312), ए ए डी

लक्ष्मन सिंह भण्डारी (00314), आर्टी
 विनय गुरुंग (00315), मैक इन्फैन्ट्री
 ए सिंगाराज (00316), इन्फैन्ट्री
 महेन्द्र सिंह (00319), इन्फैन्ट्री
 गुनाकर बारिक (00320), ए ओ सी
 कृष्णामूर्ति टी आर (00321), इन्फैन्ट्री
 सुरेश डी (00322), इन्फैन्ट्री
 ओमबीर सिंह (00323), इन्फैन्ट्री
 तरसन लाल (00324), ए ओ सी
 परोत्तम सिंह (00325), आर्टी
 नारायणन ई वी (00326), आर्टी
 नरेन्द्र सिंह यादव (00327), ए सी
 जी वेटरिवेल मुरुगन (00328), इन्फैन्ट्री
 सुरजीत सिंह (00329), मैक इन्फैन्ट्री
 होशियार सिंह (00330), ए एस सी
 सुरेश चन्द्र जोशी (00331), इन्फैन्ट्री
 यशपाल सिंह (00332), इन्फैन्ट्री
 पवन सिंह (00333), ए ए डी
 लखविन्दर सिंह (00334), इन्फैन्ट्री
 तेज बहादुर थापा (00335), इन्फैन्ट्री
 महेन्द्र कुमार (00336), ए एस सी
 अजय कुमार (00337), ए एस सी
 रछपाल सिंह (00338), इन्फैन्ट्री
 विरेन्द्र कुमार शर्मा (00339), इन्फैन्ट्री
 नन्दा कुमार सी बी (00340), इन्फैन्ट्री
 जसवीर सिंह (00341), इन्फैन्ट्री
 सुनील कुमार दहिया (00342), ए सी
 अक्षय कुमार दाश (00343), इन्फैन्ट्री
 लक्ष्मन सिंह गुसाई (00344), इन्फैन्ट्री
 अन्जनी कुमार राय (00345), आर्टी
 विजेन्द्र सिंह राणा (00346), ए एस सी
 विजय प्रकाश द्विवेदी (00348), आर्टी
 अजय कुमार सिंह (00349), इन्फैन्ट्री
 जनधिनन टी वी (00351), आर्टी

रमेश चन्दर (00352), मैक इन्फैन्ट्री

तरशेम लाल शर्मा (00353), आर्टी

मोहना कुमार एम (00354), आर्टी

परषोत्तम सिंह (00355), इन्फैन्ट्री

गुलाम मोहम्मद खान (00356), इन्फैन्ट्री

गंगा बहादुर थापा (00357), इन्फैन्ट्री

दामोदरन पी पी (00358), ए सी

गिरधारी लाल (00360), आर्टी

कुलदीप सिंह (00361), ए एस सी

एस अब्दुल कलून (00362), ए ओ सी

राजिन्दर कुमार सैनी (00364), आर्टी

पर्वता कुमार ढल (00365), इन्फैन्ट्री

के लक्ष्मीनारायणा (00366), आर्टी

नरेन्द्र कुमार मिश्रा (00368), इन्फैन्ट्री

नन्दा बल्लभ (00369), इन्फैन्ट्री

शशी भूषण (00370), इन्फैन्ट्री

जय प्रकाश जोशी (00371), आर्टी

विष्णु कुमार मौर्य (00372), ए ए डी

मैथ्यू के ए (00373), इन्फैन्ट्री

रामफल सिंह नेहरा (00374), ए ओ सी

सुधीर थापा (00375), इन्फैन्ट्री

रणधीर सिंह गिल (00376), इन्फैन्ट्री

टी के वेंकटेशालू (00377), इन्फैन्ट्री

किशोर कुमार मोरे (00378), इन्फैन्ट्री

बलबीर सिंह (00379), आर्टी

चाकू बी डी (00380), मैक इन्फैन्ट्री

रतन सिंह ठुकरान (00381), इन्फैन्ट्री

एन रघु रामा रेड्डी (00382), इन्फैन्ट्री

मुफ्ती मसूद अहमद (00383), ए सी

कल्याण सुन्दरम एस (00385), आर्टी

राम कृष्ण यादव (00386), इन्फैन्ट्री

अर्जुन प्रसाद (00387), इन्फैन्ट्री

किशोर कुमार सिंह (00389), इन्फैन्ट्री

प्रहलाद सिंह बंधराल (00390), आर्टी

हरीश चन्दर शर्मा (00392), आर्टी

रामीनेनी ए नलिनी मोहन राव (00393), इन्फैन्ट्री

रूप लाल पनहोत्रा (00394), ए एस सी

--09 जून 2007

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एस एस)

कप्तान से मेजर

नाम (एस एस नं.), आर्म, वरिष्ठता दिनांक, कोर्स संख्या, पदोन्नति के लिए संशोधित वरिष्ठता तिथि, मेजर दिनांक से

जल फारुख भारूचा (38637), ए सी, 02.09.2007, 70 (नान टैक), 02.05.2001, 02.05.2007

वी एन सुन्दर राम (38672), आर्टी, 02.09.2000, 70 (नान टैक), 02.05.2001, 02.05.2007

अविनाश कुमार (38683), ए एस सी, 02.09.2000, 70 (नान टैक), 02.05.2001, 02.05.2007

गौरव सिंह मनकोटिया (38686), इन्फैन्ट्री, 02.09.2000, 70 (नान टैक), 02.05.2001, 02.05.2007

संजय कुमार (38723), मैक इन्फैन्ट्री, 02.09.2000, 70 (नान टैक), 02.05.2001, 02.05.2007

योगेन्द्र सिंह कटियार (38786), ई एम ई, 02.09.2000, 70 (नान टैक), 02.05.2001, 02.05.2007

मोहनीश तिवारी (38793), आर्टी, 02.09.2000, 70 (नान टैक), 02.05.2001, 02.05.2007

मलय कुमार आचार्य (38796), आर्टी, 02.09.2000, 70 (नान टैक), 02.05.2001, 02.05.2007

विक्रान्त तुली (38800), ए एस सी, 02.09.2000, 70 (नान टैक), 02.05.2001, 02.05.2007

वेंकटेश पी (36048), ई एम ई, 20.08.1994, 58 (नान टैक), 20.04.1995, 16.12.2004

अरुण कुमार शर्मा (36294), आर्टी, 11.03.1995, 59 (नान टैक), 11.11.1995, 16.12.2004

कौशल एन ठाकुर (36295), आर्टी, 11.03.1995, 59 (नान टैक), 11.11.1995, 16.12.2004

रोहित गुरुंग (37239), ए सी, 07.03.1998, 65 (नान टैक), 07.11.1998, 16.12.2004

मोहन कुमार सिरोही (37252), आर्टी, 07.03.1998, 65 (नान टैक), 07.11.1998, 16.12.2004

शिवचरण सिंह (37283), आर्टी, 07.03.1998, 65 (नान टैक), 07.11.1998, 16.12.2004

अनिल कुमार तिवारी (37295), इन्फैन्ट्री, 07.03.1998, 65 (नान टैक), 07.11.1998, 16.12.2004

यशपाल हुडा (37458), इन्फैन्ट्री, 05.09.1998, 66 (नान टैक), 05.05.1999, 05.05.2005

अमरिन्दर सिंह तिवाना (37465), ए एस सी, 05.09.1998, 66 (नान टैक), 05.05.1999, 05.05.2005

करन सिंह सेंखोन (37525), ए सी, 05.09.1998, 66 (नान टैक), 05.05.1999, 05.05.2005

करनबीर सिंह नट्टा (37615), मैक इन्फैन्ट्री, 05.09.1998, 66 (नान टैक), 05.05.1999, 05.05.2005

विकास प्रधान (37738), इन्फैन्ट्री, 06.03.1999, 67 (नान टैक), 06.11.1999, 06.11.2005

मनीष बहुगुणा (37806), इन्फैन्ट्री, 06.03.1999, 67 (नान टैक), 06.11.1999, 06.11.2005

विक्रम शर्मा (37814), ए सी, 06.03.1999, 67 (नान टैक), 06.11.1999, 06.11.2005

हिमांशु बोरगांवकर (37820), इन्जीनियर्स, 06.03.1999, 67 (नान टैक), 06.11.1999, 06.11.2005

दीपक कंडपाल (37972), इन्जीनियर्स, 07.09.1997, 11 (टैक), 07.11.1997, 16.12.2004

मनीष कुमार (38000), ए ए डी, 04.09.1999, 68 (नान टैक), 04.05.2000, 04.05.2006

पपल प्रीत सिंह कहलौं (38023), आर्टी, 04.09.1999, 68 (नान टैक), 04.05.2000, 04.05.2006

महाजन महेश बल (38039), इन्फैन्ट्री, 04.09.1999, 68 (नान टैक), 04.05.2000, 04.05.2006

स्वपन कुमार सक्सेना (38124), आर्टी, 04.09.1999, 68 (नान टैक), 04.05.2000, 04.05.2006

विपिन कुमार (38126), ई एम ई, 04.09.1999, 68 (नान टैक), 04.05.2000, 04.05.2006

सुरेश कुमार (38157), ई एम ई, 04.09.1999, 68 (नान टैक), 04.05.2000, 04.05.2006

किरण सिंह (38163), इन्फैन्ट्री, 04.09.1999, 68 (नान टैक), 04.05.2000, 04.05.2006

के आर कोढ़ान्दारमन (38172), इन्फैन्ट्री, 04.09.1999, 68 (नान टैक), 04.05.2000, 04.05.2006

सत्यजीत स्वैन (38191), मैक इन्फैन्ट्री, 04.09.1999, 68 (नान टैक), 04.05.2000, 04.05.2006

अलिप कुमार राय (38199), इन्जीनियर्स, 04.09.1999, 68 (नान टैक), 04.05.2000, 04.05.2006

जन्मेजय मिश्रा (38301), इन्फैन्ट्री, 04.03.2000, 69 (नान टैक), 04.11.2000, 04.11.2006

सौर्यन्त योगवीर सिंह कृष्ण कुमार (38338), ए ओ सी, 04.03.2000, 69 (नान टैक), 04.11.2000, 04.11.2006

आशीश कुमार दुबे (38348), आर्टी, 04.03.2000, 69 (नान टैक), 04.11.2000, 04.11.2006

संजीव के वी (38393), इन्जीनियर्स, 04.03.2000, 69 (नान टैक), 04.11.2000, 04.11.2006

बी टी रमैया (38408), सिग्नल्स, 04.03.2000, 69 (नान टैक), 04.11.2000, 04.11.2006

सरकार अभिजीत बिश्वनाथ (38413), ए ए डी, 04.03.2000, 69 (नान टैक), 04.11.2000, 04.11.2006

के के विजय भास्कर (38565), ई एम ई, 06.09.1998, 13 (टैक), 06.11.1998, 16.12.2004

युद्धवीर सिसोदिया (38573), ई एम ई, 06.09.1998, 13 (टैक), 06.11.1998, 16.12.2004

राकेश कुमार त्रिपाठी (39243), ई एम ई, 05.09.1999, 15 (टैक), 05.11.1999, 05.11.2005

आनन्द कुमार पटेल (39251), इन्जीनियर्स, 05.09.1999, 15 (टैक), 05.11.1999, 05.11.2005

अनुरोध सी मिश्रा (39525), इन्जीनियर्स, 05.03.2000, 16 (टैक), 05.05.2000, 16.12.2006

शिव राम बैरवा
उप निदेशक
एम एस 8 सी

नई दिल्ली-110 011

एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

(स्थाई कमीशन)

सं. 506, दिनांक 21 सितम्बर 2007--भारत के राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3 सांविधिक 122 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की 'एक्स' शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :-

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख.

विवेक शर्मा (05302जैड), 07 जनवरी 2002/07 जून 2004

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(I) यू एस (एम पी) डी (एन-11) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलिसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :-

सब लेफ्टिनेंट का नाम (वैयक्तिक संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

प्रसाद दिवाकरन (05285के), 01 जनवरी 2003/16 दिसम्बर 2004

विजय कुमार (05240टी), 01 जनवरी 2004/16 नवम्बर 2005

आर के झा (05333डब्ल्यू), 15 जुलाई 2007/16 दिसम्बर 2004

भारत के राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3 सांविधिक 122 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की 'एक्स' शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

एस एल दियास (05320आर), 15 जुलाई 2002/01 दिसम्बर 2004

श्रीकान्थ वी (05329के), 15 जुलाई 2002/01 दिसम्बर 2004

नरेन्द्रन बी (05330एन), 15 जुलाई 2002/01 दिसम्बर 2004

भारत के राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1) यू एस (एम पी) डी (एन-II) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पुलिसि दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

विवेक प्रकाश (05230के), 01 जुलाई 2002/16 दिसम्बर 2004

ए प्रकाश (05275एन), 01 जनवरी 2003/16 दिसम्बर 2004

सरत मैनन (05284एच), 01 जनवरी 2003/16 दिसम्बर 2004

एन के श्रीवास्तव (05423जैड), 01 जनवरी 2004/16 सितम्बर 2005

अजय केशव (05286एन), 01 जनवरी 2003/16 दिसम्बर 2004

टी मुखर्जी (05445जैड), 01 जनवरी 2004/01 नवम्बर 2005

जे के वासुदेव (05293बी), 01 जनवरी 2003/16 दिसम्बर 2004

नितिन कुमार (05441आर), 01 जनवरी 2004/16 सितम्बर 2005

पी एस सेठी (05422वाई), 01 जनवरी 2004/16 जनवरी 2005

ध्रुव ढाकरे (05419आर), 01 जनवरी 2004/16 फरवरी 2005

आर के महाराणा (05442टी), 01 जनवरी 2004/01 मार्च 2005

के एस बाली (05424ए), 01 जनवरी 2004/16 मार्च 2005

एच के सिंह (05437एफ), 01 जनवरी 2004/16 अप्रैल 2005

एस मजुमदार (05430आर), 01 जनवरी 2004/01 मई 2005

एम पी बारमोटा (05440एन), 01 जनवरी 2004/01 मई 2005

अमित कुमार (05429एन), 01 जनवरी 2004/01 जून 2005

गौरव राणा (05436बी), 01 जनवरी 2004/16 जून 2005

ओम प्रकाश कामेश बाबू (05459एफ), 14 जुलाई 2003/14 फरवरी 2005

अंकुर सहगल (05575डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005/01 मई 2006

भारत के राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3 सांविधिक 122 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की 'एक्स' शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

सत्यम साहू (05299टी), 07 जनवरी 2002/22 नवम्बर 2004

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1) यू एस (एम पी) डी (एन-II) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पुलिसि दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

साहिल सागोच (05512ए), 01 जुलाई 2004/16 अप्रैल 2006

बी सजेश (05580एफ), 01 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2006

वरुण राघवन (05586डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2006

सत्य नारायण रे (05405एच), 13 जनवरी 2003/16 दिसम्बर 2004

सौरभ दूबे (05417के), 01 जनवरी 2004/16 अप्रैल 2005

भारत के राष्ट्रपति नौसेना विनियमावली भाग 3 सांविधिक 121 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की 'एक्स' शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट को लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

चैम्पियन सतीश कुमार (05144एन), 01 जनवरी 2001/16 मार्च 2003

विजय चार्ल्स डी क्रज (05143एन), 01 जनवरी 2001/16 जुलाई 2003

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1) यू एस (एम पी) डी (एन-II) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पुलिसि दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

सिद्धार्थ सिंह कार्की (05018बी), 01 जुलाई 2000/16 दिसम्बर 2002

अनिल सिंह कार्की (05547एफ), 01 जनवरी 2005/16 सितम्बर 2006

एस हर्षवर्धनन (05235वाई), 01 जुलाई 2002/16 दिसम्बर 2004

अनूप पदमन पी (05577जैड), 01 जनवरी 2005/16 सितम्बर 2006

देबासीष गुहा (05557बी), 01 जनवरी 2005/16 सितम्बर 2006

विवेक सिंह (05538के), 01 जनवरी 2005/16 मार्च 2006

विक्रान्त जैन (05539एन), 01 जनवरी 2005/01 अगस्त 2006

आर वैकट राज (05548एच), 01 जनवरी 2005/01 अगस्त 2006

एस के साहा (05327एफ), 15 जुलाई 2002/15 अक्टूबर 2004

एस के मोहान्य (05565वाई), 01 जनवरी 2005/16 अगस्त 2006
 अविनाश बी एच (05323वाई), 15 जुलाई 2002/16 दिसम्बर 2004
 आर एन शास्त्राकार (05411वाई), 13 जनवरी 2003/16 दिसम्बर 2004

ए के निषाद (05464टी), 14 जुलाई 2003/29 मार्च 2005

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(I) यू एस (एम पी) डी (एन-11) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलिसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की (शिक्षा) शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :-

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

वेन्कटा प्रसाद जगन्नाथन (70543जैड), 08 अगस्त 2005/08 सितम्बर 2006

कुमकुम उनियाल (70549आर), 08 अगस्त 2005/08 सितम्बर 2006

प्रागीपा आर जोपट (70553वाई), 08 अगस्त 2005/08 अगस्त 2006

एन पी दलाल (70535एफ), 08 अगस्त 2005/08 अगस्त 2006

सन्दीप मुररका (70538एन), 08 अगस्त 2005/08 अगस्त 2006

सुमन लता (70546एफ), 08 अगस्त 2005/08 अगस्त 2006

शिका (70542वाई), 08 अगस्त 2005/08 जनवरी 2007

शालनी नायर (70552डब्ल्यू), 08 अगस्त 2005/08 नवम्बर 2006

मन्जुनाथ सी. एस. (70489ए), 11 अगस्त 2003/16 दिसम्बर 2004

सुरजी गौर (70544ए), 08 अगस्त 2005/08 अगस्त 2006

ऊषा रानी (70547एच), 08 अगस्त 2005/08 अगस्त 2006

सुहास शीरविकर (70536एच), 08 अगस्त 2005/08 अक्टूबर 2006

विनय सारस्वत (70537के), 08 अगस्त 2005/08 अक्टूबर 2006

भक्ती गोखले (70540टी), 08 अगस्त 2005/08 अक्टूबर 2006

अतुल सहगल (70541डब्ल्यू), 08 अगस्त 2005

राकेश नेयन (70526के), 10 जनवरी 2005/10 जनवरी 2006

मनिकानन्द कृष्णन (70531वाई), 10 जनवरी 2005/10 जनवरी 2006

एन सन्तोष कुमार (70532जैड), 10 जनवरी 2005/10 जनवरी 2006

फजल बशा सी (70534बी), 10 जनवरी 2005/10 जनवरी 2006

अजित कृष्णन (70527एन), 10 जनवरी 2005/10 जनवरी 2006

सुशील कुमार (70533ए), 10 जनवरी 2005/10 जनवरी 2006

टी एस रामानाथन (70529टी), 10 जनवरी 2005/10 जनवरी 2006

के श्रीनिवासन (70530डब्ल्यू), 10 जनवरी 2005/10 जनवरी 2006

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(I) यू एस (एम पी) डी (एन-11) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलिसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा एनआई में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :-

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

पी के पांडेय (05467जैड), 14 जुलाई 2003/16 दिसम्बर 2004

सेलवा एम मेनन (05469बी), 19 जुलाई 2003/04 मार्च 2005

आर के त्रिपाठी (05470एफ), 19 जुलाई 2003/04 फरवरी 2005

वी एस कनवाल (05471एच), 20 जुलाई 2003/16 दिसम्बर 2004

सुदीप शशीधरण (05473एन), 24 जुलाई 2003/24 जनवरी 2005

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(I) यू एस (एम पी) डी (एन-11) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलिसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की (उड़ान कैंडर) शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :-

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

विवेक कुमार (05378वाई), 01 जुलाई 2003/16 दिसम्बर 2004

पी प्रमजीत (05413ए), 13 जनवरी 2003/16 दिसम्बर 2004

जी एस विवेकानन्दा (05465डब्ल्यू), 14 जुलाई 2003/16 दिसम्बर 2004

वी के नरवाल (05433वाई), 01 जनवरी 2004/01 जनवरी 2005

जी राजादुरई (05516के), 01 जुलाई 2004/01 जुलाई 2005

विवेक प्रसाद (05569एफ), 01 जनवरी 2005/01 जनवरी 2006

पारे अग्रवाल (05637के), 01 जुलाई 2005/01 जुलाई 2006

शरद घहीया (05585टी), 01 जनवरी 2005/01 जनवरी 2006

नवनीत भारद्वाज (05648के), 01 जुलाई 2005/01 जुलाई 2006

अमित कवाडे (05720जैड), 01 जनवरी 2006/01 जनवरी 2007

विकाश तोमर (05758के), 01 जनवरी 2006/01 जनवरी 2007

के भास्करन (05496आर), 12 जनवरी 2004/27 अप्रैल 2005

जे मैथ्यू (05684टी), 12 जुलाई 2004/12 दिसम्बर 2005

पी के पांडेय (05537एच), 01 जनवरी 2005/01 मार्च 2006

एस एस बोस (05544जैड), 01 जनवरी 2005/16 मई 2006

एन एम भट्ट (05617आर), 01 जुलाई 2005/01 नवम्बर 2006

रोहित नेमवियार (05622ए), 01 जुलाई 2005/01 दिसम्बर 2006

पी एस गिरिश (05651टी), 01 जुलाई 2005/01 जनवरी 2007

ए नन्दा कुमार (05462एन), 14 जुलाई 2003

एम एन विकास (05463आर), 14 जुलाई 2003

ए हरीशोकेश (05681के), 12 जुलाई 2004

अश्विन शिमहा (05570एच), 01 जनवरी 2005

पी जे आर चेतन्या (05573आर), 01 जनवरी 2005

डी मेनन (05556ए), 01 जनवरी 2005

आर के पांडेय (05759एन), 01 जनवरी 2006

जितेन्द्र सिंह (05583एन), 01 जनवरी 2005/01 मई 2006

इन्द्रजीत सिकंदर (05494के), 12 जनवरी 2004/27 मई 2005

टोम थोमस (05605एन), 01 जुलाई 2005/01 अक्टूबर 2006

पी के शर्मा (05644ए), 01 जुलाई 2005/16 नवम्बर 2006

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1) यू एस (एम पी) डी (एन-11) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलिसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की इंजीनियरिंग शाखा (निर्माता कौर) में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

पी बिसवाल (42357एन), 01 जनवरी 2001/16 दिसम्बर 2003

रतनाकर आर वी वी पी (42364एफ), 01 जनवरी 2002/16 जनवरी 2004

अनिश माधवन (42365एच), 01 जनवरी 2002/16 जनवरी 2004

बी प्रविन (42366के), 01 जनवरी 2002/16 जनवरी 2004

उपहार सक्सेना (42367एन), 01 जनवरी 2002/01 जनवरी 2004

अखिलेश पांडेय (42368आर), 01 जनवरी 2002/01 जून 2004

कृतिक दास (42369टी), 01 जनवरी 2002/01 सितम्बर 2004

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1) यू एस (एम पी) डी (एन-11) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलिसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की (शिक्षा) शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

वाई के सिंह (70539आर), 08 अगस्त 2005/08 अक्टूबर 2006

प्रथियुश चोहान (70548के), 08 अगस्त 2005/08 अगस्त 2006

श्री विश्वराज (70551टी), 08 अगस्त 2005/08 नवम्बर 2006

पी पी चोवन (70550आर), 08 अगस्त 2005/08 अगस्त 2006

सुशील कुमार (70533ए), 09 जनवरी 2005/09 जनवरी 2006

एस एन एस श्रीनिवास (05256डब्ल्यू), 02 जुलाई 2001/02 जनवरी 2004

के श्रीनिवासन (70530डब्ल्यू), 09 जनवरी 2005/09 जनवरी 2006

एस एस पटनायक (70545बी), 08 अगस्त 2005/08 अगस्त 2006

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1) यू एस (एम पी) डी (एन-11) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलिसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा लोजिस्टिक कैंडर में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

शोन थोमस (05766बी), 08 अगस्त 2005/08 दिसम्बर 2006

राधा सिंह (05763वाई), 08 अगस्त 2005/08 अगस्त 2006

प्रजवाल गणपति (05593के), 01 जुलाई 2005/16 जनवरी 2007

वरुण प्रकाश (05595आर), 01 जुलाई 2005/01 फरवरी 2007

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1) यू एस (एम पी) डी (एन-11) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलिसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की इंजीनियरिंग शाखा (निर्माता कौर) में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

जोए एम पोल (42319बी), 12 अगस्त 2002/16 दिसम्बर 2004

वरुण महाजन (42323एन), 12 अगस्त 2002/12 मई 2004

अजित सिंह यादव (42330बी), 12 अगस्त 2002/16 दिसम्बर 2004

अमित डोगरा (42331एफ), 12 अगस्त 2002/16 दिसम्बर 2004

रिचा वर्मा (42336टी), 12 अगस्त 2002/27 जुलाई 2004

पवन कुमार वाई (42346आर), 12 अगस्त 2002/27 जून 2004

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(1) यू एस (एम पी) डी (एन-11) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलिसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की (लोजिस्टिक) शाखा में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :--

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

प्रति पोदधार (05773डब्ल्यू), 07 जुलाई 2005/07 अगस्त 2006

रतना प्रभा विजय करले (05774वाई), 15 जुलाई 2005/15 अक्टूबर 2006

पी वी एस रविन्द्रा कुमार (05714के), 01 जनवरी 2006/01 मई 2007
 अनिमष कुमार (05715एन), 01 जनवरी 2006/16 मई 2007
 अशिष कुमार जेना (05717टी), 01 जनवरी 2006/01 मार्च 2007
 जे वी जोनविटी (05765ए), 08 अगस्त 2005/08 जनवरी 2007
 शिल्पा सिंह (05764जैड), 08 अगस्त 2005/08 अगस्त 2006
 एस के ग्रेवाल (05771आर), 08 अगस्त 2005/23 नवम्बर 2006

भारत के राष्ट्रपति नौसेना रक्षा मंत्रालय पत्र संख्या 4(I) यू एस (एम पी) डी (एन-II) 2004 दिनांक 11 मार्च 2005 और आई एच क्यू/एम ओ डी (एन) पत्र संख्या एन ए/3102 पोलिसी दिनांक 14 मार्च 2005 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की एक्स शाखा लोजिस्टिक कैंडर में निम्नलिखित सब-लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की घोषणा करते हैं :-

सब लेफ्टिनेंट का नाम (व्यक्तिगत संख्या), कमीशन की तारीख/लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नति की तारीख

अभिजीत धारा (05594एन), 01 जुलाई 2005/01 नवम्बर 2006
 रमन सिंह (05591एफ), 01 जनवरी 2005/16 अप्रैल 2006
 एस एस बिष्ट (05589ए), 01 जनवरी 2005/01 जुलाई 2006
 प्रति पोदार (05773डब्ल्यू), 10 अगस्त 2005/10 सितम्बर 2006
 आषुतोष चतुर्वेदी (05776ए), 19 अगस्त 2005/19 नवम्बर 2006
 जी त्यागाराजन (05772टी), 08 अगस्त 2005/08 जनवरी 2007
 गौरी मिश्रा (05767एफ), 08 अगस्त 2005/23 अगस्त 2006
 सुनेश पी पी (05775जैड), 18 अगस्त 2005/18 मार्च 2007
 मनदिप कौर (05770एन), 08 अगस्त 2005/28 जनवरी 2007
 मोनिका शर्मा (05768एच), 08 अगस्त 2005/23 सितम्बर 2006
 एलेकर लिलि मेरी (05769के), 08 अगस्त 2005/08 अगस्त 2006

जार्ज मैथ्यू
 संयुक्त निदेशक (सी एवम जे)
 कार्मिक निदेशालय

वायु शाखा

सं. 507, दिनांक 21 सितम्बर 2007---राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

एयर कामोडोर के मूल रैंक में

एस के मिधा (13643), प्रशा, 01 मई 2007

के वी शंकर

संयुक्त निदेशक कार्मिक-(अधिकारी)-2 बी

सेना शाखा

सं. 508, दिनांक 19 सितम्बर 2007---

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर राष्ट्रपति श्री बी एस चौहान, अनुभाग अधिकारी को 31 जुलाई 2007 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं तथा उनका मामला 01 अगस्त 2007 से पेंशन स्थापना को स्थानांतरित कर दिया गया है।

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशा अधिकारी

सेना शाखा

सं. 509, दिनांक 20 सितम्बर 2007---

शुद्धि पत्र

भारत के राजपत्र संख्या 267/95 में दिनांक 15 अप्रैल 1995 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

के सामने : आई सी 41794 अनुज कुमार माथुर, ए एस सी

के बदले : 17 दिसम्बर 1994

पढ़ा जाए : 17 दिसम्बर 1994

(लेकिन वेतन एवं भत्ते 06 जनवरी 1995 से देय)

शिव राम बैरवा

उप निदेशक

एम एस 8 सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 13th October 2007

No. 500, dated 18th Sep 2007—The President is pleased to appoint Shri Subhash Sharma, IAS (BH : 84) on transfer from the Government of Bihar, as Joint Secretary in the Ministry of Defence w.e.f. 31 Aug 2007 (AN) up to 31 Aug 2012 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Ajoy Acharya, IAS (MP : 76) on transfer from the Government of Madhya Pradesh, as Financial Adviser (Acquisition), Member Defence Procurement Board and Additional Secretary in the Ministry of Defence w.e.f. 03 Sep 2007 (FN).

The President is pleased to appoint Ms. Gitanjali Gupta Kundra, IAS (UT:96) on transfer from the Govt. of National Capital Territory of Delhi, as Deputy Secretary in the Deptt. of Defence, Ministry of Defence, w.e.f. 20 Aug 2007 (AN) up to 20 Aug 2011 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri H.K. Grover, a regular Steno Grade 'A' & 'B' (merged) of CSSS (Private Secretary) borne on the cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals, as Principal Private Secretary in the Ministry of Defence on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- with effect from the forenoon of 09th August, 2007 till 31 Dec 2007 or till the post is filled on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. the promotion of Shri H.K. Grover as PPS is purely ad-hoc in nature and shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS.

S.K. DEB
Under Secretary

(FINANCE DIVISION)

No. 501, dated 19th Sep 2007—The President is pleased to appoint Shri Lajpat Rai, as AFA in the Ministry of Defence (Finance Division) with effect from 12 Jul 2007 until further orders.

D.K. PANDEY
Director (E)

(ARMY BRANCH)

No. 502, dated 21st Sep 2007—The President is pleased to make the following appointments :—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f. 10 Jun 2006)

The Undermentioned Gentlemen Cadets of TES 07 Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 10 Jun 2006 under the provision of AI 3/99.

Name, IC No. and Arm/Service

Animesh Srivastava (IC-68292M), Engrs
Harpreet Singh Mann (IC-68293P), Sigs
Ajay Kumar Chauhan (IC-68294X), Engrs
Saurabh Mehta (IC-68295A), Sigs
Mayur Agarwal (IC-68296H), EME
Siddharth Jayant Vaishampayan (IC-68297L), Engrs
Sharad Kumar (IC-68298N), EME
Ankur Gupta (IC-68299W), EME
Anoop Kumar Singh (IC-68300A), Engrs
Ajay Fuloria (IC-68301H), Sigs
Lalit Kumar Saini (IC-68302L), EME
Rahul Sharma (IC-68303N), Engrs
Ritesh Bisht (IC-68304W), EME
R Vikram (IC-68305Y), Sigs
Rajeev Kumar (IC-68306F), Sigs
Rahul Gupta (IC-68307K), EME
Raviraj Chandrakant Chavan (IC-68308M), EME
Rohit (IC-68309P), Engrs
Chandan Singh Alung (IC-68310K), Inf
Tanmoy Rath (IC-68311M), Sigs
Rachit Pathak (IC-68312P), Sigs
Mrinal Sharma (IC-68313X), Sigs
Sharma Simit Ramesh (IC-68314A), Engrs
Suyodhana Vellanki (IC-68315H), EME
S Yuvaraj (IC-68316L), Engrs
Varun Khare (IC-68317N), Engrs
N Ravi Kumar (IC-68318W), EME
Acharya D Aditya Chandra (IC-68319Y), EME
Rajesh Kumar (IC-68320N), EME
Akshat Pandey (IC-68321W), Engrs
Ajay Kumar Rana (IC-68322Y), EME
Akash Pawaria (IC-68323F), Engrs
Yogendra Singh Tomer (IC-68324K), Engrs
Sunil Balawant Pawar (IC-68325M), EME
Gunavrat Bhivgade (IC-68326P), Engrs
Rakesh Bhan (IC-68327X), Engrs
Dhirender Joshi (IC-68328A), Engrs
Abhishek Singh (IC-68329H), Sigs
Himanshu Singh (IC-68330X), Engrs
Nikhil Kumar (IC-68331A), Sigs
Abhishek R (IC-68332H), EME
Akshat Kapoor (IC-68333L), EME
Varun Kumar (IC-68334N), Engrs
Vivek Kumar (IC-68335W), EME

Saswata Das (IC-68336Y), Sigs
 Varun Mishra (IC-68337F), Sigs
 Narinder Pal Singh (IC-68338K), EME
 Dabholkar Sandesh Krishna Ji (IC-68339M), Engrs
 Harpreet Singh (IC-68340F), EME
 Hardeep Singh Bhatia (IC-68341K), EME
 Tejpal Singh Sodhi (IC-68342M), Sigs
 Binu Vijya Kumar PP (IC-68343P), EME
 T Kin Ashok Prabhu (IC-68344X), Inf
 Kadam Shrenik Mohan (IC-68345A), Engrs
 Kundan Kumar (IC-68346H), EME
 Piyush Chettri (IC-68347L), EME
 Pawan Kumar (IC-68348N), EME
 Sarnadgouda Pavan Kumar S (IC-68349W), Engrs
 Parul Bhatnagar (IC-68350L), Sigs
 Bhavesh Mudgal (IC-68351N), Engrs
 Sidharth Singh (IC-68352W), EME
 Shailesh Kumar (IC-68353Y), Engrs
 Ashish Kumar Chowdhary (IC-68354F), Sigs
 Mohit Wadehra (IC-68355K), Sigs
 Sushil Johrar (IC-68356M), Engrs
 Hans Raj Singh (IC-68357P), Sigs
 Konishka Choudhury (IC-68358X), Engrs
 Sachin Kapoor (IC-68359A), EME
 Avijit Sharma (IC-68360P), Sigs
 Arjun Ganapathi (IC-68361X), Mech Inf
 Siddharth Sharma (IC-68362A), EME
 Robin Panicker (IC-68363H), Engrs
 Abhishek Bahl (IC-68364L), EME
 Arnav Choudhury (IC-68365N), EME
 Deepak Kumar Singh (IC-68366W), Sigs
 Bhupendar Singh Verma (IC-68367Y), Sigs
 Deepak A Chandawar (IC-68368F), EME
 Moroney Aniruddha Avinash (IC-68369K), Engrs
 Anshuman Vikram (IC-68370Y), Sigs
 Shiba Prasad Banerjee (IC-68371F), Engrs

CHANDER SHEIKHAR

Lt. Col.
 AMS—8 B

ARMY BRANCH

No. 503, dated 18th Sep 2007—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMOURED CORPS

(To be Nb Ris)

Dfr/Clk Sat Pal (No. 1078344F now JC-242124A), 01 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Hakim Ali (No. 1080729X now JC-242125H), 02 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Raja Kumar H D (No. 1080752L now JC-242126L), 04 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Udaya Kumar P (No. 1080496F now JC-242128W), 02 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Om Prakash Ray (No. 1080813X now JC-242129Y), 02 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Shyama Pada Mondal (No. 1080812P now JC-242130N), 02 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Shanti Ranjan Sarkar (No. 1080819Y now JC-242162W), 07 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Dfr/Clk Shyamal Kumar Bhattacharyya (No. 1080815H now JC-242163Y), 01 May 2007

Dfr/Clk Bimalendu Bikes Chowdhury (No. 1080814A now JC-242164F), 01 May 2007

Dfr/Clk Kallu Singh (No. 1080922K now JC-242194Y), 01 Jun 2007

Dfr/Clk Ram Niwas (No. 1080915W now JC-242193W), 01 Jun 2007

Dfr/Clk Rajiv Kumar (No. 1081671X now JC-242196K), 01 Jun 2007

Dfr/SKT Vijender Kumar Yadav (No. 1081193Y now JC-242127N), 03 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Dfr/Skt Tangade Uddhas Janardhan (No. 1079064A now JC-242131W), 02 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Dfr/Skt Jaswant Singh (No. 1079165N now JC-242165K), 07 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

SPECIAL LIST

ARMoured CORPS

(To be Substantive Resaldar)

Nb Ris/Pandit Kameshwar Rai (JC-236836M), 04 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/Pandit Dinesh Mani Tripathi (JC-236837P), 26 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/Pandit Anil Kumar Sharma (JC-236838X), 21 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/Pandit Kailash Prasad Tiwari (JC-236839A), 15 Apr 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances)

Nb Ris/Granthi Harpal Singh (JC-237869L), 30 Dec 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances)

JOSE THOMAS
Under Secretary

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 504, dated 19th Sep 2007—The President is pleased to make the following Appointment/Promotions:—

To be Hav to Nb sub Clk (GD)

Sreekumaran Nair R (No. 14565813H now JC-760834H), 01 Sep 2006/01 Sep 2006*

To be Hav to Nb Sub DVR (MT)

Rajender Singh Bhist (No. 14546268P now JC-760844M), 22 Aug 2006/01 Aug 2006*

To be Hav to Nb Sub SKT

Mohim Chandra Nath (No. 14544091N now JC-760762K), 01 Aug 2006/01 Aug 2006*

To be Hav to Nb Sub TCM (L)

Hira Lal Prasad (No. 14558097A now JC-760818L), 18 Aug 2006/09 Jul 2006*

Kaul Ashvani Kumar (No. 14558151H now JC-760819N), 10 Aug 2006/16 Jul 2006*

Sudershan Singh Negi (No. 14557681L now JC-760817H), 09 Aug 2006/09 Jul 2006*

To be Hav to Nb Sub TCM (R)

Pramod Kumar (No. 14552269N now JC-760789F), 07 Aug 2006/01 Jul 2006*

To be Hav to Nb Sub TCM (RO)

Laxmidhar Dalal (No. 14558232H now JC-760784H), 04 Aug 2006/01 Feb 2006*

Raj Bir Singh (No. 14560369N now JC-760785L), 04 Aug 2006/01 Jun 2006*

U Paul Raj (No. 14560383A now JC-760786N), 14 Aug 2006/01 Jul 2006*

To be Hav to Nb Sub VM (AFV)

Subhash Chandar (No. 14552306W now JC-760790W), 16 Aug 2006/01 Apr 2006*

To be Hav to Nb Sub VM (MV)

Raj Pal (No. 14541223L now JC-760788Y), 04 Aug 2006/01 May 2006*

To be Hav to Nb Sub EE Mech

A K Pandey (No. 14539502X now JC-760787W), 07 Aug 2006/07 Jun 2006*

*(Gtd ante dated seniority)

N.K. KASHMIRA
Under Secy.

No. 505, dated 20th Sep 2007—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Major

Name, IC No., Arm and Subs Maj Wef

Devendra Pratap Singh (IC-57334), Engrs, 16 Dec 2004

K Prakash (IC-59310), Engrs, 11 Dec 2005

Surjeet Singh Tanwar (IC-59602), M/Inf, 10 Jun 2004

Vidya Prakash (IC-59723), Arty, 10 Jun 2006

Virendar Singh Salaria (IC-60086), AC, 09 Dec 2006

Manoj Kumar Jha (IC-60094), ASC, 09 Dec 2006

Lok Bahadur Mall (IC-60109), AOC, 09 Jun 2007

Puneet Attri (IC-60186), AC, 09 Dec 2006
 Sachin Deepak Wakankar (IC-60224), Arty, 09 Dec 2006
 Viveka Murthy NS (IC-60286), Arty, 09 Dec 2006
 Vinay Kumar Pathak (IC-60297), Arty, 09 Dec 2006
 Shubhankar Mishra (IC-60423), ASC, 09 Dec 2006
 Davender (IC-60443), Arty, 09 Dec 2006
 Abhijat Kushwaha (IC-60445), Inf, 09 Jun 2007
 Gagan Deep Singh (IC-60465), ASC, 09 Dec 2006
 Kuneek Faujdar (IC-64839), Arty, 04 Nov 2006
 Deshpande Pankaj Harish (IC-64882), AAD, 04 Nov 2006
 Jitander Singh (IC-65013), INT, 02 May 2007
 Prithipal Singh Ahluwalia (IC-65084), EME, 02 May 2007
 Adeep Paul Panesar (IC-65085), EME, 02 May 2007
 Praveen Kumar (IC-65090), EME, 02 May 2007

SPECIAL COMMISSION

Capt to be Maj

Name, SC No and Arm

Manjanath (SC-00297), AC
 Avijit Das (SC-00298), ASC
 Sanjeev N (SC-00300), Inf
 David Jebaraj (SC-00301), Int
 Madhusoodhanan BV (SC-00302), AOC
 Tham Bahadur Shrestha (SC-00303), Inf
 Dilbag Singh Rana (SC-00304), Arty
 K Annadurai (SC-00305), Inf
 KN Selvan (SC-00306), Inf
 Bache Singh (SC-00307), Arty
 M Emmanuel Sobers Manickaraj (SC-00308), Inf
 Piar Singh Bhatia (SC-00309), Inf
 Damodaran P (SC-00310), Arty
 Thomas Varghese (SC-00311), Arty
 H Shukoor (SC-00312), AAD
 Laxman Singh Bhandari (SC-00314), Arty
 Vinay Gurung (SC-00315), Mech/Inf
 A Singaraj (SC-00316), Inf
 Mahendra Singh (SC-00319), Inf
 Gunakar Barik (SC-00320), AOC
 Krishna Murthy TR (SC-00321), Inf
 Suresh D (SC-00322), Inf

Ombir Singh (SC-00323), Inf
 Trasam Lal (SC-00324), AOC
 Protam Singh (SC-00325), Arty
 Narayanan EV (SC-00326), Arty
 Narender Singh Yadav (SC-00327), AC
 G Vetrivel Murugan (SC-00328), Inf
 Surjit Singh (SC-00329), Mech/Inf
 Hoshiyar Singh (SC-00330), ASC
 Suresh Chandra Joshi (SC-00331), Inf
 Yashpal Singh (SC-00332), Inf
 Pawan Singh (SC-00333), AAD
 Lakhvinder Singh (SC-00334), Inf
 Tej Bahadur Thapa (SC-00335), Inf
 Mahendra Kumar (SC-00336), ASC
 Ajay Kumar (SC-00337), AC
 Rachh Pal Singh (SC-00338), Inf
 Virender Kumar Sharma (SC-00339), Inf
 Nanda Kumar CB (SC-00340), Inf
 Jasvir Singh (SC-00341), Inf
 Sunil Kumar Dhaliya (SC-00342), AC
 Akshya Kumar Dash (SC-00343), Inf
 Lakshman Singh Gusain (SC-00344), Inf
 Anjni Kumar Rai (SC-00345), Arty
 Vijander Singh Rana (SC-00346), ASC
 Vijai Prakash Dwivedi (SC-00348), Arty
 Ajay Kumar Singh (SC-00349), Inf
 Janardhanan TV (SC-00351), Arty
 Ramesh Chander (SC-00352), Mech/Inf
 Tarsem Lal Sharma (SC-00353), Arty
 Mohana Kumar M (SC-00354), Arty
 Parshotam Singh (SC-00355), Inf
 Gulam Mohammad Khan (SC-00356), Inf
 Ganga Bahadur Thapa (SC-00357), Inf
 Damodaran PP (SC-00358), AC
 Girdhari Lal (SC-00360), Arty
 Kuldeep Singh (SC-00361), ASC
 S Abdul Kaloos (SC-00362), AOC
 Rajinder Kumar Saini (SC-00364), Arty
 Pravata Kumar Dhal (SC-00365), Inf

K Laxminarayana (SC-00366), Arty
 Narendra Kumar Mishra (SC-00368), Inf
 Nanda Ballabh (SC-00369), Inf
 Shashi Bhushan (SC-00370), Inf
 Jay Prakash Joshi (SC-00371), Arty
 Vishnu Kumar Maurya (SC-00372), AAD
 Mathew KA (SC-00373), Inf
 Ramphal Singh Nehra (SC-00374), AOC
 Sudhir Thapa (SC-00375), Inf
 Randhir Singh Gill (SC-00376), Inf
 TK Venkatesalu (SC-00377), Inf
 Kishor Kumar More (SC-00378), Inf
 Balbir Singh (SC-00379), Arty
 Chacko VD (SC-00380), Mech Inf
 Rattan Singh Thukran (SC-00381), Inf
 N Raghu Rama Reddy (SC-00382), Inf
 Mufti Masood Ahmad (SC-00383), AC
 Kalyana Sundaram S (SC-00385), Arty
 Ram Krishna Yadav (SC-00386), Inf
 Arjun Prasad (SC-00387), Inf
 Kishor Kumar Singh (SC-00389), Inf
 Prahlad Singh Bandhral (SC-00390), Arty
 Harish Chander Sharma (SC-00392), Arty
 Ramineni A Nalini Mohan Rao (SC-00393), Inf
 Roop Lal Panhotra (SC-00394), ASC

—09 Jun 2007

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Capt to be Major

Name, SS No., Arm, DOS, Course, Revised Date of seniority
 for Promotion and Major wef -

Zal Farrokh Bharucha (SS-38637), AC, 02 Sep 2000, SS-70
 (NT), 02 May 2001/02 May 2007

V N Sundar Ram (SS-38672), Arty, 02 Sep 2000, SS-70 (NT),
 02 May 2001/02 May 2007

Avinash Kumar (SS-38683), ASC, 02 Sep 2000, SS-70 (NT),
 02 May 2001/02 May 2007

Gaurav Singh Mankotia (SS-38686), Inf, 02 Sep 2000, SS-
 70 (NT), 02 May 2001/02 May 2007

Sanjay Kumar (SS-38723), Mech, 02 Sep 2000, SS-70 (NT),
 02 May 2001/02 May 2007

Yogendra Singh Katiyar (SS-38786), EME, 02 Sep 2000,
 SS-70 (NT), 02 May 2001/02 May 2007

Mohanish Tewari (SS-38793), Arty, 02 Sep 2000, SS-70
 (NT), 02 May 2001/02 May 2007

Malay Kumar Acharya (SS-38796), Arty, 02 Sep 2000,
 SS-70 (NT), 02 May 2001/02 May 2007

Vikrant Tuli (SS-38800), ASC, 02 Sep 2000, SS-70 (NT),
 02 May 2001/02 May 2007

Venkatesh P (SS-36048), EME, 20 Aug 1994, SSC-58 (NT),
 20 Apr 1995/16 Dec 2004

Arun Kumar Sharma (SS-36294), Arty, 11 Mar 1995,
 SSC-59 (NT), 11 Nov 1995/16 Dec 2004

Kaushal N Thakur (SS-36295), Arty, 11 Mar 1995, SSC-59
 (NT), 11 Nov 1995/16 Dec 2004

Rohit Gurung (SS-37239), AC, 07 Mar 1998, SSC-65 (NT),
 07 Nov 1998/16 Dec 2004

Mohan Kumar Sirohi (SS-37252), Arty, 07 Mar 1998,
 SSC-65 (NT), 07 Nov 1998/16 Dec 2004

Shivcharan Singh (SS-37283), Arty, 07 Mar 1998, SSC-65
 (NT), 07 Nov 1998/16 Dec 2004

Anil Kumar Tiwari (SS-37295), Inf, 07 Mar 1998, SSC-65
 (NT), 07 Nov 1998/16 Dec 2004

Yashpal Hooda (SS-37458), Inf, 05 Sep 1998, SSC-66 (NT),
 05 May 1999/05 May 2005

Amarinder Singh Tiwana (SS-37465), ASC, 05 Sep 1998,
 SSC-66 (NT), 05 May 1999/05 May 2005

Karan Singh Sekhon (SS-37525), AC, 05 Sep 1998, SSC-66
 (NT), 05 May 1999/05 May 2005

Karanbir Singh Natta (SS-37615), Mech, 05 Sep 1998,
 SSC-66 (NT), 05 May 1999/05 May 2005

Vikas Pradhan (SS-37738), Inf, 06 Mar 1999, SSC-67 (NT),
 06 Nov 1999/06 Nov 2005

Manish Bahuguna (SS-37806), Inf, 06 Mar 1999, SSC-67
 (NT), 06 Nov 1999/06 Nov 2005

Vikram Sharma (SS-37814), AC, 06 Mar 1999, SSC-67 (NT),
 06 Nov 1999/06 Nov 2005

Himanshu Borgaonkar (SS-37820), Engrs, 06 Mar 1999,
 SSC-67 (NT), 06 Nov 1999/06 Nov 2005

Deepak Kandpal (SS-37972), Engrs, 07 Sep 1997, SSC-11
 (T), 07 Nov 1997/16 Dec 2004

Manish Kumar (SS-38000), AAD, 04 Sep 1999, SSC-68
 (NT), 04 May 2000/04 May 2006

Papal Preci Singh Kahlon (SS-38023), Arty, 04 Sep 1999,
 SSC-68 (NT), 04 May 2000/04 May 2006

Mahajan Mahesh Bal (SS-38039), Inf, 04 Sep 1999, SSC-68
 (NT), 04 May 2000/04 May 2006

Swapan Kumar Saxena (SS-38124), Arty, 04 Sep 1999, SSC-68 (NT), 04 May 2000/04 May 2006

Vipin Kumar (SS-38126), EME, 04 Sep 1999, SSC-68 (NT), 04 May 2000/04 May 2006

Suresh Kumar (SS-38157), EME, 04 Sep 1999, SSC-68 (NT), 04 May 2000/04 May 2006

Kripal Singh (SS-38163), Inf, 04 Sep 1999, SSC-68 (NT), 04 May 2000/04 May 2006

KR Kodhandaraman (SS-38172), Inf, 04 Sep 1999, SSC-68 (NT), 04 May 2000/04 May 2006

Satyajit Swain (SS-38191), Mech, 04 Sep 1999, SSC-68 (NT), 04 May 2000/04 May 2006

Alip Kumar Roy (SS-38199), Engrs, 04 Sep 1999, SSC-68 (NT), 04 May 2000/04 May 2006

Janmejaya Mishra (SS-38301), Inf, 04 Mar 2000, SSC-69 (NT), 04 Nov 2000/04 Nov 2006

Sorount Yogveer Singh Krishnakumar (SS-38338), AOC, 04 Mar 2000, SSC-69 (NT), 04 Nov 2000/04 Nov 2006

Ashish Kumar Dube (SS-38348), Arty, 04 Mar 2000, SSC-69 (NT), 04 Nov 2000/04 Nov 2006

Sajeev KV (SS-38393), Engrs, 04 Mar 2000, SSC-69 (NT), 04 Nov 2000/04 Nov 2006

BT Ramaiah (SS-38408), Sigs, 04 Mar 2000, SSC-69 (NT), 04 Nov 2000/04 Nov 2006

Sarkar Abhijit Biswanath (SS-38413), AAD, 04 Mar 2000, SSC-69 (NT), 04 Nov 2000/04 Nov 2006

KK Vijay Bhaskar (SS-38565), EME, 06 Sep 1998, SSC-13 (T), 06 Nov 1998/16 Dec 2004

Yudhvir Sisodia (SS-38573), EME, 06 Sep 1998, SSC-13 (T), 06 Nov 1998/16 Dec 2004

Rabinder Singh Jamwal (SS-38891), Sigs, 03 Jul 1999, SSC-14 (T), 03 Sep 1999/03 Sep 2005

Dinesh Kumar Gupta (SS-38904), Sigs, 03 Jul 1999, SSC-14 (T), 03 Sep 1999/03 Sep 2005

Rakesh Kumar Tripathi (SS-39243), EME, 05 Sep 1999, SSC-15 (T), 05 Nov 1999/05 Nov 2005

Anand Kumar Patel (SS-39251), Engrs, 05 Sep 1999, SSC-15 (T), 05 Nov 1999/05 Nov 2005

Anurodh C Mishra (SS-39525), Engrs, 05 Mar 2000, SSC-16 (T), 05 May 2000/15 May 2006

SHIV RAM BAIRWA
Dy. Dir
MS-8C

No. 506, dated 21st September 2007—The President is pleased to make the following promotion in the Executive Branch of the Indian Navy, under Article 122 of Regulations Navy Part III, Statutory :—

NAVY BRANCH

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Sub Lieutenant to be Lieutenant

Name & Pers No. of Slt, Date of Comm'n and Date as Lt

Vivek Sharma (05302Z), 07 Jan 2002/07 Jun 2004

The President is pleased to make the following promotion in the Executive Branch of Indian Navy under provisions of GOI letter No. 4(1)/US(MP)/D(N-II) dated 11 Mar 2005 and IHO/MoD letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005.

NAVY BRANCH

(PERMANENT COMMISSION)

Sub Lieutenant to be Lieutenant

Name & Pers No. of Slt, Date of Commission and Date as Lt

Prasad Divakaran (05285K), 01 Jan 2003/16 Dec 2004

Vijay Kumar (05420T), 01 Jan 2004/16 Nov 2005

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Sub Lieutenant to be Lieutenant

Name & Pers No. of Slt, Date of Commission and Date as Lt

RK Jha (05333W), 15 Jul 2002/16 Dec 2004

The President is pleased to make the following promotion in the Executive Branch of the Indian Navy, under Article 122 of Regulations Navy Part III, Statutory :—

NAVY BRANCH

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Sub Lieutenant to be Lieutenant

Name & Pers No. of Slt, Date of Commission and Date as Lt

SL Dias (05320R), 15 Jul 2002/01 Dec 2004

Srikanth V (05329K), 15 Jul 2002/16 Dec 2004

Narendran B (05330N), 15 Jul 2002/16 Dec 2004

The President is pleased to make the following promotion in the Executive Branch of the Indian Navy, under provisions of GOI letter No. 4(1)/US(MP)/D(N-II) dated 11 Mar 05 and IHQ/MoD letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005 :—

NAVY BRANCH

(PERMANENT COMMISSION)

Sub Lieutenant to be Lieutenant

Name & Pers No. of Slt, Date of Commission and Date as Lt

Vivek Prakash (05230K), 01 Jul 2002/16 Dec 2004

A Prakash (05275N), 01 Jan 2003/16 Dec 2004

Sarat Menon (05284H), 01 Jan 2003/16 Dec 2004

SK Srivastava (05423Z), 01 Jan 2004/16 Sep 2005

Ajay Kashov (05286N), 01 Jan 2003/16 Dec 2004

T Mukherjee (05445Z), 01 Jan 2004/01 Nov 2005

JK Vasudeva (05293B), 01 Jan 2003/16 Dec 2004

Nitin Kumar (05441R), 01 Jan 2004/16 Sep 2005

PS Sethi (05422Y), 01 Jan 2004/16 Jan 2005

Dhruv Dhakre (05419R), 01 Jan 2004/16 Feb 2005

RK Maharana (05442T), 01 Jan 2004/01 Mar 2005

KS Bali (05424A), 01 Jan 2004/16 Mar 2005
 HK Singh (05437F), 01 Jan 2004/16 Apr 2005
 S Majumdar (05430R), 01 Jan 2004/01 May 2005
 MP Barmotha (05440N), 01 Jan 2004/01 May 2005
 Amit Kumar (05429N), 01 Jan 2004/01 Jun 2005
 Gaurav Rana (05436B), 01 Jan 2004/16 Jun 2005
 Pradeep Kumar (05425B), 01 Jan 2004/16 Aug 2005
 DS Bareth (05421W), 01 Jan 2004/16 Sep 2005
 Thomas Mathew (05444Y), 01 Jan 2004/16 Oct 2005
 S Vineesh Kumar (05428K), 01 Jan 2004/01 Feb 2006

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive branch of the Indian Navy under provision of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 05 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Omprakash Kamesh Babu (05459F), 14 Jul 2003/14 Feb 2005

(PERMANENT COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive branch of the Indian Navy under provision of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 05 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Ankur Sehgal (05575W), 01 Jan 2005/01 May 2006

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Slt. to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive branch of the Indian Navy under provision of Article 122 of Regulations, Navy Part III, Statutory:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Satyam Sahu (05299T), 07 Jan 2002/22 Nov 2004

(PERMANENT COMMISSION)

Slt. to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive branch of the Indian Navy under provision of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 05 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Sahil Sagoch (05512A), 01 Jul 2004/16 Apr 2006

B Sajesh (05580F), 01 Jan 2005/01 Nov 2006

Varun Raghavan (05586W), 01 Jan 2005/01 Nov 2006

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive branch of the Indian Navy under provision of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 05 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Satya Narayan Ray (05405H), 13 Jan 2003/16 Dec 2004

(PERMANENT COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive branch of the Indian Navy under provision of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 05 and IHQ/MoD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Saurabh Dubey (05417K), 01 Jan 2004/16 Apr 2005

(PERMANENT COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive branch (Musician Cadre) of the Indian Navy under Regulations 121 of Regs Navy Part III, Statutory:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Champion Satish Kumar (05144N), 01 Jan 2001/16 Mar 2003

Vijay Charles D' Cruz (05143N), 01 Jan 2001/16 Jul 2003

(PERMANENT COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive branch of the Indian Navy under provision of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 05 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Sidharth Singh Karki (05018B), 01 Jul 2000/16 Dec 2002

Anil Singh Karki (05547F), 01 Jan 2005/16 Sep 2006

S Harshavardhan (05235Y), 01 Jul 2002/16 Dec 2004

Anup Padman P (05577Z), 01 Jan 2005/16 Sep 2006

Debasish Guha (05557B), 01 Jan 2005/16 Sep 2006

Vivek Singh (05538K), 01 Jan 2005/16 Mar 2006

Vikrant Jain (05539N), 01 Jan 2005/01 Aug 2006

R Venkat Raj (05548H), 01 Jan 2005/01 Aug 2006

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive branch of the Indian Navy under provision of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 05 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

SK Saha (05327F), 15 Jul 2002/15 Oct 2004

(PERMANENT COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive branch of the Indian Navy under provision of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 05 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

SK Mohanta (05565Y), 01 Jan 2005/16 Aug 2006

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive branch of the Indian Navy under provision of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 05 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Avinash BH (05323Y), 15 Jul 2002/16 Dec 2004

RN Shastrakar (05411Y), 13 Jan 2003/16 Dec 2004

AK Nishad (05464T), 14 Jul 2003/29 Mar 2005

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Education branch of the Indian Navy under provision of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 05 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Venkada Prasad Jaganathan (70543Z), 08 Aug 2005/08 Sep 2006

Kumkum Uniyal (70549R), 08 Aug 2005/08 Sep 2006

Pragya R Jopat (70553Y), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

NP Dalal (70535F), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

Sandeep Murarka (70538N), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

Suman Lata (70546F), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

Shikha (70542Y), 08 Aug 2005/08 Jan 2007

Shalini Nair (70552W), 08 Aug 2005/08 Nov 2006

Manjunatha CS (70489A), 11 Aug 2003/16 Dec 2004

Suruchi Gaur (70544A), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

Usha Rani (70547H), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

Suhas Shribavikar (70536H), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

Vinay Sarswat (70537K), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

Bhakti Gokhale (70540T), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

Atul Sehgal (70541W), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

Rakesh Nain (70526K), 10 Jan 2005/10 Jan 2006

Manikandan Krishnan (70531Y), 10 Jan 2005/10 Jan 2006

N Santosh Kumar (70532Z), 10 Jan 2005/10 Jan 2006

Fazal Basha C (70534B), 10 Jan 2005/10 Jan 2006

Ajit Krishnan (70527N), 10 Jan 2005/10 Jan 2006

Sushil Kumar (70533A), 10 Jan 2005/10 Jan 2006

TS Ramanathan (70529T), 10 Jan 2005/10 Jan 2006

K Srinivasan (70530W), 10 Jan 2005/10 Jan 2006

2. Draft Gazette Notification No. JO/102 dated 04 Jul 2006, 07 Jul 2006, 10 Jul 2006, 13 Jul 2006, 24 Jul 2006 and 28 Jul 2006 may be treated as cancelled.

(PERMANENT COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive branch NAI Cadre of the Indian Navy under provision of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 05 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

P K Panda (05467Z), 14 Jul 2003/16 Dec 2004

Selva M Mohan (05469B), 19 Jul 2003/14 Mar 2005

R K Tripathi (05470F), 19 Jul 2003/04 Feb 2005

VS Kanwal (05471H), 20 Jul 2003/16 Dec 2004

Sudeep Sashidharan (05473N), 24 Jul 2003/24 Jan 2005

(PERMANENT/SSC COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Executive branch Naval Aviation Cadre of the Indian Navy under provision of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 05 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Vivek Kumar (05378Y), 01 Jul 2003/16 Dec 2004

P Premjith (05413A), 13 Jan 2003/16 Dec 2004

G S Vivekananda (05465W), 14 Jul 2003/16 Dec 2004

Following Draft Gazette Notification mentioned below stand cancelled :

Draft Gazette Notification No. JO/95 dated 31 May 2006. Srl Nos. (i), (ii) & (iii) under para 2 in respect of Slts (a) Vivek Kumar (05378Y) (b) P Premjith (05413A) & (c) G S Vivekananda (05465W).

VK Narwal (05433Y), 01 Jan 2004/01 Jan 2005

G Raajadurai (05516K), 01 Jul 2004/01 Jul 2005

Vivek Prasad (05569F), 01 Jan 2005/01 Jan 2006

Yashy Aggarwal (05637K), 01 Jul 2005/01 Jul 2006

Sharad Dahiya (05585T), 01 Jan 2005/01 Jan 2006

Navneet Bhardwaj (05648K), 01 Jul 2005/01 Jul 2006

Armit Kawade (05720Z), 01 Jan 2006/01 Jan 2007

Vikas Tomar (05758K), 01 Jan 2006/01 Jan 2007

K Bhaskaran (05496R), 12 Jan 2004/27 Apr 2005

J Mathews (05684T), 12 Jul 2004/12 Dec 2005

P K Pandey (05537H), 01 Jan 2005/01 Mar 2006

S S Bose (05544Z), 01 Jan 2005/16 May 2006

N M Bhatt (05617R), 01 Jul 2005/01 Nov 2006

Rohit Nambiar (05622A), 01 Jul 2005/01 Dec 2006

V S Girish (05651T), 01 Jul 2005/01 Jan 2007

A Nandakumar (05462N), 14 Jul 2003/16 Dec 2004

M N Vikas (05463R), 14 Jul 2003/16 Dec 2004

N Harishikesh (05681K), 12 Jul 2004/12 Sep 2005

Aswin Simha (05570H), 01 Jan 2005/01 May 2006

P J R Chaitanya (05573R), 01 Jan 2005/16 Apr 2006

D Menon (05556A), 01 Jan 2005/01 Jun 2006

R K Pandya (05759N), 01 Jan 2006/01 Apr 2007

Jitendra Singh (05583N), 01 Jan 2005, 8/01 May 2006

Indrajit Sikdar (05494K), 12 Jan 2004, 7.5/27 May 2005

Tom Thomas (05605N), 01 Jul 2005, 09/01 Oct 2006

P K Sharma (05644A), 01 Jul 2005, 7.5/16 Nov 2006

The President is pleased to make following promotion in the Engineering Branch of Naval Constructor of Indian Navy under the provisions of Min of Def letter No. NC/3066/NHQ/3182/D(N-II) dated 10 Jun 77 and navy order No. 127/99:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion as Lt

P Biswal (42257N), 01 Jan 2001/16 Dec 2003

Ratnakar RVVV (42364F), 01 Jan 2002/16 Jan 2004

Anish Madhavan (42365H), 01 Jan 2002/16 Jan 2004

B Praveen (42366K), 01 Jan 2002/16 Jan 2004

Uphar Saxena (42367N), 01 Jan 2002/01 Jan 2004

Akhilesh Pandey (42368R), 01 Jan 2002/01 Jun 2004

Karthik Das (42369T), 01 Jan 2002/01 Sep 2004

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Education Branch of the Indian Navy under provisions of Govt of India letter No. 4(1)/US(MP)/D(N-II)/2004 dated 11 Mar'05 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated Mar'05:—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion as Lt

Y K Singh (70539R), 08 Aug 2005/08 Oct 2006

Pratyush Chauhan (70548K), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

Shree Vishwaraj (70551T), 08 Aug 2005/08 Nov 2006

P P Chavan (70550R), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

Sushil Kumar (70533A), 09 Jan 2005/09 Jan 2006

The President is pleased to make the following promotion in the Education Branch of the Indian Navy under Regulation 167 and 168 of Regs Navy Part III Statutory and Ministry of Defence letter No. Ad 2232/75/3798/NHQ/D(N-II) dated 21 Jul 76 and TR 3331/P/G 07 Feb 89 :—

Name, Personal No., Date of Commission Seniority in months and Date of Promotion as Lt

S N S Srinivas (05256W), 02 Jul 2001, 6/02 Jan 2004

The President is pleased to make undermentioned promotion in the Education Branch of the Indian Navy under provisions of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005 :—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

K Srinivasan (70530W), 09 Jan 2005/09 Jan 2006

S S Pattnaik (70545B), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

(PERMANENT COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make undermentioned promotion in Executive Branch (Logistic Cadre) of the Indian Navy under provisions of Govt. of India letter No. 4(1)/US (MP)/D(N-II)/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005 :—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Shawn Thomas (05766B), 08 Aug 2005/08 Dec 2006

Radha Singh (05763Y), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

Ratna Prabha Vijay Karle (05774Y), 15 Jul 2005/10 Nov 2006

Prajwal Ganapathy (05593K), 01 Jul 2005/16 Jan 2007

Varun Prakash (05595R), 01 Jul 2005/01 Feb 2007

The President is pleased to make the following promotion in the Engineering Branch of Naval Constructor of Indian

Navy under provisions of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D (N-II)/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005 :—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion as Lts

Joe M Paul (42319B), 12 Aug 2002/16 Dec 2004
 Varun Mahajan (42323N), 12 Aug 2002/12 May 2004
 Ajit Singh Yadav (42330B), 12 Aug 2002/16 Dec 2004
 Amit Dogra (42331F), 12 Aug 2002/16 Dec 2004
 Richa Verma (42336T), 12 Aug 2002/27 Jul 2004
 Pawan Kumar Y (42346R), 12 Aug 2002/27 Jun 2004

(PERMANENT COMMISSION)

Slt to be Lts

The President is pleased to make the undermentioned promotions in Executive Branch (Logistic Cadre) of the Indian Navy under provisions of Govt of India letter No. 4(1)/US (MP)/D/N-II/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005 :—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion as Lt

Preeti Poddar (05773W), 07 Jul 2005/07 Aug 2006
 Ratna Prabha Vijay Karle (05774Y), 15 Jul 2005/15 Oct 2006

2. Following Draft Gazette Notifications below stand cancelled.

(a) Draft Gazette Notification No. JO/105 dated 19 Jan 2007. Srl (b) under para 2 in respect of Slt Ratna Prabha Vijay Karle (05774Y)

(b) Draft Gazette Notification No. JO/105 dated 08 Feb 2007 Srl (a) under para 2 in respect of Slt Preeti Poddar (05773W).

PVS Ravindra Kumar (05714K), 01 Jan 2006/01 May 2007

Animesh Kumar (05715N), 01 Jan 2006/16 May 2007

The President is pleased to make the undermentioned promotion in Executive Branch (Logistic Cadre) of the Indian Navy under provisions of Govt. of India letter No. 4(1)/US (MP)/D/N-II/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005 :—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Ashish Kumar Jena (05717T), 01 Jan 2006/01 Mar 2007

(SHORT SERVICE COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make the undermentioned promotion in Executive Branch (Logistic Cadre) of the Indian

Navy under provisions of Govt. of India letter No. 4(1)/US (MP)/D/N-II/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005 :—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

J V Johnbritto (05765A), 08 Aug 2005/08 Jan 2007
 Shilpi Singh (05764Z), 08 Aug 2005/08 Aug 2006
 S K Grewal (05771R) 08 Aug 2005/23 Nov 2006

(PERMANENT COMMISSION)

Slt to be Lt

The President is pleased to make the undermentioned promotion in Executive Branch (Logistic Cadre) of the Indian Navy under provisions of Govt. of India letter No. 4(1)/US (MP)/D/N-II/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated 14 Mar 2005 :—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion as Lt

Abhijit Dhara (05594N) 01 Jul 2005/01 Nov 2006

The President is pleased to make the undermentioned promotion in Executive Branch (Logistic Cadre) of the Indian Navy under provisions of Govt. of India letter No. 4(1)/US (MP)/D/N-II/2004 dated 11 Mar 2005 and IHQ/MOD (N) letter No. NA/3102/Policy dated Mar 2005 :—

Name, Personal No., Date of Commission and Date of Promotion

Raman Singh (05591F), 01 Jan 2005/16 Apr 2006

SS Bisht (05589A), 01 Jan 2005/01 Jul 2006

Preeti Poddar (05773W), 10 Aug 2005/10 Sep 2006

Ashutosh Chaturvedi (05776A), 19 Aug 2005/19 Nov 2006

G Theyagarajan (05772T), 08 Aug 2005/08 Jan 2007

Gauri Mishra (05767F), 08 Aug 2005/23 Aug 2006

Suneesh P P (05775Z), 18 Aug 2005/18 Mar 2007

Mandip Kaur (05770N), 08 Aug 2005/08 Jan 2007

Monika Sharma (05768H), 08 Aug 2005/23 Sep 2006

Alex Lilly Mary (05769K), 08 Aug 2005/08 Aug 2006

GEORGE MATHEW

JDOP (C & J)

Directorate of Personnel

(AIR BRANCH)

No. 507, Dated 21 Sep 2007—The President is pleased to make the following substantive Promotion:—

INDIAN AIR FORCE

ADM BRANCH

To be Substantive Air CMDE (ADM Branch)

Rank, Name, Number, BR and Date

Air CMDE (ACTG) SK Midha (13643), Adm, 01 May 2007

K V SHANKAR

Jt. Director of Personnel (Officers) 2(B)

(ARMY BRANCH)

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 508, dated 19 September 2007 :—On attaining the age of superannuation, the President is pleased to retire Shri BS Chauhan, Section Officer (Group 'B' Gazetted) of AFHQ Civil Service from Government Service w.e.f. 31 Jul 2007 and

transferred to Pension Establishment with effect from 01 Aug 2007.

SHANKAR SINGH
Dy. Chief Admn. Officer

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDUM

No. 509, dated 20th Sep 2007:—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 267/95 published on 15 Apr 1995 under the heading "Regular Army, Permanent Commission," and sub heading "Capt to be Maj" the following amendment is made:—

Against	: (IC-41794) Anuj Kumar Mathur, ASC
For	: 17 Dec 1994
Read	: 17 Dec 1994
	(But Pay & Allowances wef 06 Jan 1995)

SHIV RAM BAIRWA
Dy. Dir.
MS-8C